

संतुलित आहार के फायदे

संतुलित आहार के फायदे की बात करे तो बहुत ही अधिक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए संतुलित आहार का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके फायदे इस तरह हैं-

1 शारीरिक विकास

अगर हम संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरह के भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों का सर्वांगिण विकास होता है। शरीर में सभी प्रकार के कोशिकाओं का विकास होता है। नए ऊतकों का निर्माण होता है। तथा जो कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो गए रहते हैं उन्हें यह मरम्त करते हैं। क्योंकि इस भोजन में हर तरह के पोषक तत्व पाये जाते हैं जो शरीर के विकास के लिए सहायक होते हैं। हमारे शरीर के लिवर किडनी फेफड़े को संक्रमण से बचाते हैं। इस तरह हमारे शरीर के विकास में यह सहायक होते हैं।

2 मानसिक विकास

संतुलित आहार शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कारण जो नर्वस सिस्टम होते हैं वह बहुत अच्छे से वर्क करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन और मल्टीमीनिरल रहता है जिसके कारण से नसों में खून का प्रवाह अच्छे से होता है। और भोजन का अच्छे से पाचन भी होता है। परिणाम स्वरूप रक्त का प्रवाह मस्तिष्क तक आसानी से होता है। इसी कारण से मानसिक विकास होता है।

3 हड्डियों का विकास

संतुलित भोजन में हर तरह के विटामिन्स और खनिज रहते हैं जो हड्डियों का विकास में सहायक रहते हैं। जैसे कैल्शियम पोटैशियम और मैग्नीज जो हड्डियों के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं।

4. निरोग

संतुलित भोजन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं रहेंगे। क्योंकि इसमें कोई भी तत्व आवश्यकता से अधिक नहीं रहता है। शरीर को जितनी मात्रा में विटामिन्स और खनिज की जरूरत रहती है उतनी ही मात्रा इसमें रहती है। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का खराब कोलेस्टरॉल नहीं रहता है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी स्ट्रांग रहता है। इन सभी कारण से शरीर निरोग रहता है।

5. सौंदर्यता

इस तरह का आहार लेते हैं तो शारीरिक सौंदर्यता बना रहता है क्योंकि इसमें शरीर का विकास तो होता है लेकिन शारीरिक बनावट के अनुसार ही होता है। न तो वजन जरूरत से जादा बढ़ता है और न ही कम होता है। इसके साथ ही त्वचा के ऊपरी परत में नमी बना रहता है। इसी कारण से सौंदर्यता बना रहता है।

6. वजन का संतुलित रहना

संतुलित आहार की खासियत यह है कि यह शरीर के वजन को शरीर के उचाई के अनुसार ही बढ़ाता है। मतलब शरीर का वजन हाइट चार्ट के अनुसार ही बढ़ता है।